

HINDÍ PRIMER.

(THE SIMPLE LETTERS.)

अक्षरमाला ।

TWENTY-FIRST EDITION.

PUBLISHED BY THE CHRISTIAN
LITERATURE SOCIETY,
ALLAHABAD.


20,000 Copies.

Price 3 pie.]

1909.

[दाने एक पैसा ।

अक्षरमाला ।



अ

आ

इ

ई

उ

ऊ

ऋ

ॠ

ए

ऐ

ओ

औ

अं

अः

ककहरा तो पहिले लिखा है पर पाठक उस को पहिले न पढ़ावें परन्तु चौथे पृष्ठ से शुरू करके पढ़ावें॥

क	ख	ग	घ	ङ
च	छ	ज	झ	ञ
ट	ठ	ड	ढ	ण
त	थ	द	ध	न
प	फ	ब	भ	म
य	र	ल	व	श
ष	स	ह	क्ष	ज्ञ

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ०

जब तक विद्यार्थी एक एक पाठ को ठीक ठीक पढ़ न सकें तब तक उन को आगे बढ़ाया न चाहिये। फिर जब पढ़के सुनावें तब एक एक अक्षर और शब्द को तख्ते पर लिखना भी सीखें और उस के लिखने के लिये आपस में एक को दूसरे से कहना चाहिये ॥

१ पाठ ।

तर
पग

रग
नक

मग
कर

२ पाठ ।

नट
गज
जट

जर
तट
जन

तप
जग
तन

३ पाठ ।

कल
मत
पल

कज
रम
जल

नल
मन
लग

४ पाठ ।

क ब
द ल
व क

ब ट
प द्
च ट

द र
च ल
ज म

५ पाठ ।

ज य
व ह
ड स

च र
न र
र ह

ड ग
र स
व स

६ पाठ ।

क द्
ज ब
र च
ड र
त ट

प र
म न
क म
च ट
ल स

क ल
ग च
र ह
प द्
ड स

७ पाठ ।

क	ख	ग	घ	ङ
घट	खर	कब	घर	गत

८ पाठ ।

च	छ	ज	झ	ञ
छब	भट	छत	जप	बच

९ पाठ ।

ट	ठ	ड	ढ	ण
ठस	ढव	बट	गण	डस

१० पाठ ।

त	थ	द	ध	न
धप	बध	यह	घन	मध

११ पाठ ।

प	फ	ब	भ	म
फण	भट	हम	भय	फल

१२ पाठ ।

य	र	ल	व	श
ष	स	ह	क्ष	ज्ञ
खर	रह	वध	सच	मम
				क्षय

१३ पाठ ।

अ	आ	इ	ई		
आठ	इस	अब	ईश	अघ	आश

१४ पाठ ।

उ	ऊ	ऋ	ॠ		
ऋण	उठ	आज	ऊन	उग	ऊह

१५ पाठ ।

ए	ऐ	ओ	औ	अं	अः
ओट	एक	अंग	और	ओस	छः

१६ पाठ ।

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ०

न त ज ल ज व ब
 क ग भ भ म स घ
 ध प ष फ य थ र
 ण ख श ण ऐ ट ठ
 द ढ उ ऊ ड ड इ
 ई ज्ञ क्ष च ह अ अं
 अः आ ओ औ क्

